

एन के बागडोदिया ग्लोबल स्कूल

सेक्टर- 17,द्वारका

सत्र -2019-20

समय : 1 घंटा

असेस्मेन्ट - 3

कक्षा : तीसरी

अ .अ - 25

सामान्य निर्देश :-

- इस प्रश्न पत्र के चार खंड हैं क, ख, ग, घ ।
- चारों खंडों के उत्तर देने अनिवार्य हैं ।
- प्रश्नों के सभी उपभागों के उत्तर क्रमशः दीजिए।

अपठित बोध (खंड- 'क')

प्रश्न 1 - निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

(5)

एक गधा जंगल में घास चर रहा था। जंगल के किनारे पर ही उसके मालिक हरिया का घर था। वह रोज़ जंगल में आकर घास खाता और चला जाता। जंगल की हरी-भरी घास खाकर उसे बड़ा ही मज़ा आता था। उसे वहाँ कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मगर एक दिन अचानक ही उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने बाघ खड़ा था, जिसके पेट में चूहे कूद रहे थे।

क) गधा जंगल में क्या कर रहा था?

1

ख) जंगल के किनारे किसका घर था?

1

ग) 'गृह' के दो पर्यायवाची शब्द लिखें।

1

घ) 'पेट में चूहे कूदना' मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाएँ।

2

व्याकरण (खंड - 'ख')

(7)

प्रश्न 2- निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए संज्ञा के भेद के अनुसार संज्ञा शब्द छाँट कर लिखें:-

क) मीना गाने का अभ्यास कर रही है। (व्यक्तिवाचक संज्ञा)

(0.5*4=2)

ख) मेरे भाई को रात में डर लगता है। (भाववाचक संज्ञा)

ग) बाहर लड़के खेल रहे हैं। (जातिवाचक संज्ञा)

घ) दीपिका अपना काम समय पर करती है। (व्यक्तिवाचक संज्ञा)

प्रश्न 3- उचित सर्वनाम शब्दों से निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें:-

(0.5*4=2)

क) _____ पास कुछ नए कपड़े हैं। (आप/मेरे)

ख) माँ _____ बेटे को बुला रही है। (अपने/किसके)

ग) _____ सदा सच बोलना चाहिए। (हमें/क्या)

घ) _____ दिल्ली में रहता हूँ। (मैं/वह)

प्रश्न 4- निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग-अलग करके लिखें:-

क) वह लड़की सुंदर है। (0.5*4=2)

ख) सोहन बुद्धिमान है।

प्रश्न 5- निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूर्ण करें:- (0.5*2=1)

क) मोहन पत्र _____ है।

ख) पंखा _____ रहा है।

साहित्य (खंड - 'ग')

(7)

प्रश्न 6- निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:-

(1+1+1=3)

क) तेनालीराम ने राजा को भेंट में क्या दिया?

ख) सुबह उठकर पप्पू ने कौन सा अचरज देखा?

ग) संगीता और रूपेंद्र हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में रहते थे?

प्रश्न 7- किसने किससे कहा:-

(1)

'अरे ! तेनालीराम क्या लाए हो?'

प्रश्न 8- निम्नलिखित शब्द का अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाएँ:-

(1.5)

अ) सूरमा

प्रश्न 9- निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें:-

(0.5+0.5+0.5=1.5)

'दीप-दीप से मिलकर होगी उजियारी की पाँतें,
दीपों की झिलमिल कतार-सी होगी मीठी बातें।'

अ) ऊपर दी गई पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं?

ब) 'कड़वी' का विलोम शब्द लिखें।

स) 'पाँतें' शब्द का अर्थ लिखें।

लेखन (खंड- 'घ')

(3+3=6)

प्रश्न 10- जन्मदिन का निमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखें।

प्रश्न 11- सहायक शब्दों द्वारा वाक्य बनाकर चित्र वर्णन करें:-

सहायक शब्द:-सफाई अभियान, छात्र-छात्राएँ, अध्यापिका, झाड़ू, कचरा, सड़क, विद्यालय, आस-पास

